Jaitley questions high interest rates on savings

New Delhi, July 9

ITH private invest-Arun Jaitley on Saturday wondered whether it is desirable to continue offering high interest rates on savings that translate into higher cost of lending and sluggishness in the economy.

India, he said, has "peculiar" characteristics of having "quite high" percentage of domestic savings. "Now, whether domestic savings are only to be used by such instruments which give you a higher return and create an interest regime which is ex-

Srinagar, July 9: Eight peo-

ple were killed and 126, in-

cluding96securityforcesper-

sonnel, were injured on

Saturdayasmobviolenceand clashes rocked Kashmir over

thegunningdown of militant commander Burhan Wani

even as authorities imposed

curfew-like restrictions and

suspended mobile Internet

services to contain the

Amarnath Yatra was also

suspended in view of the

worseningsituation, with po-

lice saying it will be resumed

"as soon as it is possible to en-

of Hizbul Mujahideen mili-

tant outfit, was laid to rest in

his native place Tral, violent

mobs attacked installations

of police and paramilitary

forces at various places in

the Valley and set ablaze sev-

eral buildings including

Jaipur, July 9: Niti Aayog

Panagariya said the govern-

menthasputtheeconomyon

the path of reform to achieve

a high growth trajectory

though there are significant

lags between policy deci-

sions and outcomes which

He said challenges such

as restoration of the health

of banks and accelerated

need to be addressed.

vice-chairman

Economy healthier

Arvind

compared to last year

of UPA II: Panagariya

sure security of yatris".

volatile situation.



Finance minister Arun Jaitley

tremely costly and makes the economy sluggish, or higher returns are to be got from such instruments as funds, bonds, shares (that finance projects and economic activity)," he asked.

Speaking at a function

8 killed, 126 hurt in clashes over

Burhan Wani killing in Kashmir

Protesters clash with police in Srinagar on Saturday

pate in the funeral.

"We have had a very diffi-

cult day today," said ADGP

(CID) of J&K Police SM Sahai

while describing the situa-

tion "bad in certain seg-

ments", "not critical" in ar-

eas like north Kashmir and

under control in Srinagar.

Virbhadra

ED arrests

PMLA case:

with its money launder-

ing case against Hi-

machal Pradesh chief

Singh, ED on Saturday

took into custody LIC

from Chandigarh under

the provisions of the Pre-

vention of Money Laun-

dering Act (PMLA) as he

was allegedly not cooper-

ating with the investigat-

ing officer of the case, offi-

cials said. "Chauhan will

be produced in a compe-

tent court. As he is not co-

operating, his custodial

interrogation is neces-

Chauhan was arrested

agent Anand Chauhan.

minister

Virbhadra

three police installations, as

Burhan's funeral was at-

tended by thousands of peo-

ple. There was no deploy-

ment of security forces in

Tral and adjoining areas to

avoid a confrontation with

the people coming to partici-

As Burhan, the poster boy a result of which three cops

were missing.

here to unveil a commemora- omy will need a lot of investtive postage stamp to mark 140 years of BSE, he said the period to bridge the infraessence of all economic activity is investment which is going to come from where refordecades. sources are available.

element of secured investment in them which can give people a very respectable return itself. That's the basis on which pension funds the world over have been functioning and I think these are areas of advances as we grow over the next several years and decades. More and more opportunities are going to come to us," he said.

Asper Jaitley, Indian econ-

ment for a reasonably long structure and industrialisation deficit that has existed

"A lot of them have also an all activity has to be investment, it has to be resourceraising, it has to be important companies in the private sector and sometimes PPP,

which will ensure this deficit is met," he said. The finance minister felt

that in this context, BSE is an important institution. "Last few years have seen India grow "And the starting point of well, essentially grow well on the strength of enhanced public investment (and) FDI. The best of private sector in that development process is yet to be seen." he said.

CORRIGENDUM NO. 1 TO E-TENDER ENQUIRY NO. REC-153 (NIT No. 754 Dated 24.05.2016)

HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED

Shakti Bhawan, Sector-6, Panchkula. CIN: U40101HR1997SGC033683 The last date of online bid submission for construction of 220 KV GIS Substation, Sector-65 & 95, Gurgaon in Haryana is extended upto 22.07.2016. Detail NIT and tender document is available at website https://haryanaeprocurement.gov.in, https://www.hvpn.gov.in.

Superintending Enginer/MM-I, for CE/MM, HVPNL, Panchkula.

SOUTHERN RAILWAY

Chennai - 600 023 MATERIALS MANAGEMENT DEPARTMENT

e-TENDER NOTICE FOR THE SUPPLY OF STORES NO.E-27/2016 The following e-Tenders are published in IREPS website. Firms are requested to login to http://www.ireps.gov.in->SR>COS. and quote against these tenders. Manual quotations will not be entertained for these tenders. Closing time for all tenders 14:30 Hours

No.	Tender No.	Description	Due Date
1	04160897	Head Stock Complete	08.08.2016
2	26165026	Smoothing Reactor	08.08.2016
3	43165013	Journal Axle Box	08.08.2016
4	05160030	Lead Acid Battery Low Maintenance Type 4V / 12AH	09.08.2016
5	26162328	Secondary Suspension Spring	09.08.2016
6	43165005	Secondary Spring	09.08.2016
7	44165005	Slack less Draw Bar	09.08.2016
8	05140026	Low Maintenance Lead Acid Stationary Secondary Cells 2V / 120AH	10.08.2016
9	15165004	Electronics for UFSBI as per IRS.S-104/ 2012 or Latest	10.08.2016
10	44150069	Face Plate	10.08.2016
11	04165007	Head Stock Arrangement	11.08.2016
12	26161007	Lead Acid Battery	11.08.2016
13	29163312	Cable, AWG - 1, 225/24 (0.105) to EMD Part No.10661360	11.08.2016

MANUAL TENDER NOTICE FOR THE SUPPLY OF STORES No.09/2016

Sealed Tenders are invited for the following to reach the Controller of Stores, Southern Railway, Ayanavaram, Chennai - 600 023 by the dates shown against each. Completed Tender documents will be received up to 14.00 Hrs. of the due date and will be opened at 14.30 Hrs. on the same day. For full description and specification please refer to the tender document available in the website under the link http://www.sr.indianrailways.gov.in. This site permits downloading of tender documents. The indenting tenderers may visit this site and download the tender documents. While submitting the completed tender documents, they should attach a Demand Draft in favour of "Chief Cashier, Southern Railway" payable at Chennai, towards the cost of tender documents. The tender forms (non transferable) can be obtained from the above office on payment (either in cash or Money Order / Demand Draft drawn on a Nationalised Bank). Drawing / specification wherever indicated can be obtained from RDSO/Lucknow, ICF/Chennai on payment (Non Refundable). This Railway is not responsible for any postal delay. Requisitions for tender documents on free of cost should be accompanied by the copies of the latest NSIC certificate duly attested by Self / Notary / Gaz. Officer. NSIC registered firms should ensure that necessary postal charges are accompanied with their requisition. ₹ 50/- extra for sending tender documents by post. Tender documents if required by post, to be

made a minimum of 10 bays in advance of the due date.									
	SI.No.	SI.No. Tender No. Description							
	1	26155088	Set of Imported Dampers	07.09.2016					
	Attenti	on: Micro &	Small Enterprises (MSEs). The benefits	provided to					

MSEs under Public Procurement Policy for goods and services are as per details provided in the link http://www.ireps.gov.in->ireps public documents-> southern railways.

Controller of Stores

LIC agent New Delhi, July 9: In the first arrest in connection

'A part of your daily life' CIN: L74899DL1988PLC032166 Regd. Off.: 305, 3" Floor, Bhanot Corner, Pamposh Enclave, Greater Kailash-I. New Delhi-110 048, Phone: +91-11-26440917, 26440925 Fax: +91-11-26216922

Website: www.uflexltd.com, Email: flexsec@vsnl.net NOTICE

NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting ("AGM") of the members of UFLEX Limited (the "Company") is scheduled to be held on Tuesday, August 2, 2016 at 10:00 AM at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi - 110 010 to transact the business as stated in the Notice dated May 27, 2016. Electronic copies of the Notice of Annual General Meeting and Annual Report 2016 have been sent to all the Members whose Email Ids are registered with the Company / Depository Participants. The same are also available on the website of the Company at www.uflexltd.com. Notice of Annual General Meeting and Annual Report 2016 have been sent all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch has been completed on July 5, 2016. Members are entitled to receive the said Notice and Annual Report in physical form upon sending the request in writing to the Company's Registered Office and / or sending an email

As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote by electronic means on all resolutions set forth in the Notice. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide the e-voting facility to the Shareholders.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall be closed from July 26, 2016 to August 2, 2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM and determining entitlement of the Shareholders to the

Dividend for the year 2016. All members are informed that:

Place : NOIDA

Date : 08.07.2016

(a) the business as set-forth in the Notice of AGM may be transacted through voting

(b) the date and time of commencement of remote e-voting: Saturday, July 30.

(c) the date and time of end of remote e-voting: Monday, August 1, 2016, 5.00 PM. (d) the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at

the AGM: Tuesday, July 26, 2016. The voting rights of the Members shall be in proportion to their shareholding as on the cut-off date. (e) Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of Annual General Meeting and hold

shares as of the cut-off date i.e. July 26, 2016, can follow the process for generating the Login ID and Password as provided in the Notice of the Annual General Meeting. If such a person is already registered with CDSL for e-voting, existing User ID and Password can be used for casting vote.

the members may note that: (i) remote e-voting shall not be allowed beyond August 1, 2016 - 5.00 PM;

(ii) The facility for voting through Polling Paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through polling paper;

(iii) a member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; and

(iv) a person whose name is recorded in the register of members or in the

register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cutoff date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting. (g) website address of the Company and of the agency where notice of the meeting

is displayed: www.uflexltd.com and www.evotingindia.com.

(h) name, designation, address, email id and phone number of the person responsible to address the grievances connected with facility for voting by

Shri Subhash Khatua, Dy. General Manager (Secretarial), Email Id: flexsec@vsnl.net, Telephone No.: 011-26440917, 011-26440925, Address: 305, 3rd Floor, Bhanot Corner, Pamposh Enclave, Greater Kailash - I, New Delhi - 110 048

By Order of Board AJAY KRISHNA

Place: Faridabad

Date: 9th July, 2016

Sr. Vice President (Legal) & Company Secretary ACS No.3296 Address: C-115, Sector-26, Noida - 201301

RCom promoters pledge shares worth ₹190 cr

New Delhi, July 9: Promoters Zapak Digital Entertainof Reliance Communications havepledged3.8croresharesat an estimated value of ₹190 crore before private banks.

As per a filing by Axis Trustee, three crore shares of Reliance Wind Turbine In-RCom pledged in its favour on July 5 are in connection with loan facilities availed by RCom's subsidiaries—Reliance Big Entertainment, Trustee on July 5.

mentand Reliance Infra Consultancy Services and for NCDs issued by Reliance Communications.

stallators Industries Private Limited has pledged three crore RCom shares with HD-

FC Bank through Axis

Referring to the loan availed by RCom subsidiaries, Axis Trustee said, "In this connection, we refer to additional pledge of The RCom promoter firm 30,000,000 shares of Reliance Communications Limited.' However, the reason for pledging 80 lakh shares by Reliance Communications Enterprises before IndusInd Bank could not be ascertained. PTI

STATE BANK OF INDIA Floor, Local Head office, RACPC, Moti Mahal Marg, Lucknow-226 001 POSSESSION NOTICE (for movable property under Rule 8 (1))

Whereas, The undersigned being the Authorized of the State Bank of India, RACPC (Munshipulia), Lucknow

Branch under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest

Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 8 and 9 of

the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a 13(2). The Bank issued demand notice on the date mentioned against account and stated herein after calling upon them to repay the amount, within 60 days from the date of receipt of said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the Property/Vehicle described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said Rule on the date mentioned against the account. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of State Bank of India, RACPC (Munshipulia), Lucknow Branch for the amounts and interest thereon. Details of properties where possession had been taken is as follows:

Amount O/s Name & Address of the Description of The movable Demand Notice (as per u/s 13(2) Borrower/Branch/ A/C No. Property mortgaged / Possession UP-32- EE 8956 24.01.2015 SWIFT DZIRE LXI SB-IV Sri Pratik Roy S/o Makkhan Lal Roy, R/o 04.07.2016 interest+ other Chasis No. H.No. 166, Surya City, Takrohi, Indira MA3EJKD1S001420364 expenses Nagar, Lucknow Engine No. A/C No.: 32309381818 K12MN1169723

Date: 10.07.2016, Place: Lucknow **Authorised Officer**

SRS FINANCE LIMITED Regd. Office: SRS Tower, 306, 3rd Floor, Near Metro Station Mewla Maharajpur, G.T. Road, Faridabad (NCR Delhi)-121003

T: 0129-4323100 F: 0129-4323195 E: rakhimehta@srsparivar.com W: www.srsparivar.com CIN: - L74899HR1994PLC040440 RESULTS OF POSTAL BALLOT ANNOUNCED ON 9th JULY, 2016

Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules,

2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, consent of the Members of the Company was sought by way of Ordinary Resolutions as set out in the Postal Ballot Notice dated 6th June, 2016 by means of physical Ballot Forms and voting through electronic means (e-voting) Postal Ballot Notice containing the Ordinary Resolutions together with the statement annexed to the Notice was sent to all the

Members of the Company and last date of receipt of Postal Ballot Form, either through physical submission or through e-voting was Friday, 8th July, 2016. Ms. Savita Trehan, Practicing Company Secretary, being the Scrutinizer appointed by the Board of Directors, has submitted her

report dated 9th July, 2016 to the Whole-Time Director & CFO of the Company. According to the report as submitted by the scrutinizer, the result of the said Postal Ballot is as under

Date of declaration of the results of Postal Ballot Saturday, 9th July, 2016 Total number of shareholders on record date: (being the cut-off date for determining shareholders entitled to vote- 3rd June, 2016) No. of Shareholders present in the meeting either in person or through proxy: Not Applicable Promoters and Promoter Group: Public: No. of Shareholders attended the meeting through Video Conferencing: Not Applicable Promoters and Promoter Group: Public:

Agenda-wise disclosure

SPECIAL BUSINESS

Item No.1 Appointment of M/s. SVP & Associates, Chartered Accountants, as new Statutory Auditors of the Company to fill Casual Vacancy

Resolution R	colution Required ether promoter/promoter group are interested in the agenda/resolution?						Ordinary Resolution No			
Whether pror										
Category	Mode of Voting	No. of shares held	No. of votes polled	% of Votes Polled on outstanding shares	No. of Votes-in favour	No. of Votes- against	% of Votes in favour on votes polled	% of Votes against on votes polled		
		(1)	(2)	(3)=[(2)/(1)]*100	(4)	(5)	(6)=[(4)/(2)]*100	(7)=[(5)/(2)]*100		
Promoter and	E-Voting	67864437	67864437	100	67864437	Nil	100	Nil		
Promoter	Poll		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
Group	Postal Ballot		-	-	25	-	10	-		
	Total		67864437	100	67864437	Nil	100	Nil		
Public-	E-Voting	Nil			-					
Institutions	Poll		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
	Postal Ballot			+	-	7.4	-	(*)		
	Total				•			*		
Public-	E-Voting		19272513	63.69	19272513	Nil	100	Nil		
Non	Poll	30257156	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
Institutions	Postal Ballot		200	0.00	200	Nil	100	Nil		
	Total		19272713	63.69	19272713	Nil	100	Nil		
Total		98121593	87137150	88.80	87137150	Nil	100	Nil		

The Number of votes polled in favour of the Resolution is **87137150** (100% of the total valid votes). Thus, the Resolution has been passed with requisite majority. Itam No. 2 Sub Division of Equity shares from the Ease Value of De 10/, nor share to De 1/, nor share

Resolution Required Whether promoter/promoter group are interested in the agenda/resolution?						Ordinary Resolution No			
		(1)	(2)	(3)=[(2)/(1)]*100	(4)	(5)	(6)=[(4)/(2)]*100	(7)=[(5)/(2)]*100	
Promoter and	E-Voting	67864437 Nil	67864437	100	67864437	Nil	100	Nil	
Promoter	Poll		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Group	Postal Ballot		-		5/				
	Total		67864437	100	67864437	Nil	100	Nil	
Public-	E-Voting				-	-	15	-	
Institutions	Poll		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
	Postal Ballot		-	-			-	-	
	Total				•		•		
Public-	E-Voting		19272513	63.69	19272513	Nil	100	Nil	
Non	Poll	30257156	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Institutions	Postal Ballot		200	0.00	200	Nil	100	Nil	
	Total		19272713	63.69	19272713	Nil	100	Nil	
Total		98121593	87137150	88.80	87137150	Nil	100	Nil	

The Number of votes polled in favour of the Resolution is 87137150 (100% of the total valid votes). Thus, the Resolution has been passed with requisite majority.

Resolution Required Whether promoter/promoter group are interested in the agenda/resolution?							Ordinary Resolution No			
		(1)	(2)	(3)=[(2)/(1)]*100	(4)	(5)	(6)=[(4)/(2)]*100	(7)=[(5)/(2)]*100		
Promoter and	E-Voting		67864437	100	67864437	Nil	100	Nil		
Promoter	Poll	67864437	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
Group	Postal Ballot									
	Total		67864437	100	67864437	Nil	100	Nil		
Public-	E-Voting	19	3.5%			-50	15	-		
Institutions	Poll	Nil	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
	Postal Ballot			-		**	(8	*:		
	Total		100							
Public-	E-Voting	2	19272513	63.69	19272513	Nil	100	Nil		
Non	Poll	30257156	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
Institutions	Postal Ballot		200	0.00	200	Nil	100	Nil		
	Total		19272713	63.69	19272713	Nil	100	Nil		
Total		98121593	87137150	88.80	87137150	Nil	100	Nil		

The Number of votes polled in favour of the Resolution is 87137150 (100% of the total valid votes). Thus, the Resolution has been passed with requisite majority.

For SRS Finance Ltd.

(Naveen Kumar Tayal) Whole-Time Director & CFO

growth in the manufacturing sector as envisaged by the Centre's 'Make in India'

growth continue to remain. However, he said the direction of progress is right. Delivering a lecture on 'The Economy at Two Years

under Prime Minister

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be

held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurred as a result of

transactions with companies,

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

ning Commission and said the role of planning too is poised for a change. Niti Aayog is working on a

ty of Rajasthan, Panagariya defended the creation of NI-

TI Aayog in place of Plan-

15-year vision plan complemented by a seven-year strategy and a three-year short-run macro framework plan, he

Narendra Modi' at Universitwo years of its rule.

said.PanagariyasaidtheUPA I government had expanded social schemes but not taken necessary measures to sustain the high growth over a programme to achieve job longer period of time.

Heclaimed that the "policy paralysis" during the UPA II rule had hurt the economy badly and as a result, it descended into what appeared to be a crisis during the last

Ale The

DELHI TOURISM

Delhi Tourism & Transportation **Development Corporation Limited** (A Govt. of Delhi undertaking)

sary," they said.

(Engineering Wing) NOTICE INVITING E-TENDER

The Executive Engineer (SP), DTTDC Ltd., Srinivaspuri, Lajpat Nagar, New

Delhi-110065 (Tel./Fax: 9810597275/26331607) invites on behalf of M.D.& C.E.O., DTTDC Ltd., online item rate tenders for the following works:-NIT No.: (Recall)15/EE(SP)/DTTDC/Engg./2016-17, Name of Work: istrar office and Housekeepin DM (East) office Gandhi Nagar, Delhi. (SH: Providing Housekeeping and Essential Day to Day Maintenance of Civil & Electrical Services) Estimated Cost: Rs. 29,19,172/-, Earnest Money: Rs. 58,383/-, Period of

Completion: 360 Days, Last time and date of submission of bid: 03:00 PM on

15.07.2016. Tender ID No.: 2016_DTTDC_109722_1

NIT No.: 17/EE(SP)/DTTDC/Engg./2016-17, Name of Work: Operation and Maintenance of Souvenir Shop in Dr APJ Abdul Kalam Museum at Dilli Haat INA, New Delhi-110023 for a period of two years, Earnest Money Rs. 25,000/-, Period of Completion: 2 years, Last time and date of submission of bid: 03:00 PM on 16.07.2016. Tender ID No.: 2016 DTTDC 109716 1 Further details and Terms & Conditions can be seen at https://govtprocurement.delhi.gov.in with Tender ID's mentioned above

any manner whatsoever.

KOTAK MAHINDRA BANK LTD. Registered Office: 27-BKC, C-27, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051 Branch Office: 2nd Floor, No. 6, Vaishali Enclave, Adjacent Gulab Sweets, Pitampura, New Delhi

POSSESSION NOTICE (As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002) Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of Kotak Mahindra Bank Limited having its branch office at 2nd Floor, 6, Vaishali, Pitampura, Adjacent to Gulab Sweets, New Delhi 110088 under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (3 of 2002) ("the said Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("the said Rules") issued a Demand Notice U/s 13(2) dated 18.04.2016 calling upon the borrowers Mr. Vikas Mehra and Mrs. Mukta Mehra, to repay the outstanding amount mentioned in the notice being Rs. 1,63,82,507.55/- (Rupees One Crore Sixty Three Lacs Eighty Two Thousand Five Hundred and Seven and Paisa Fifty Five Only) as on 18th April 2016, within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the said amount, notice is hereby given to the borrowers and the

The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property mentioned hereunder and any dealings with the under mentioned property shall be subject to the charge of Kotak Mahindra Bank Ltd for an amount of Rs. 1,68,41,538.04 /- (Rupees One Crore Sixty Eight Lacs Forty One thousand Five Hundred and Thirty Eight and Paisa Four Only) as on 04.07.2016 and interest thereon till the date of full repayment.

All that Piece and parcel of Apartment no 13th, Vega, 3 Bed Room Hall, Kitchen type on 13th floor, "Celeste Tower" Plot No. - D-003A, Sec-44, Noida (UP).

Description of the immovable properties :-

Date: 04-07-2016 For Kotak Mahindra Bank Ltd. Place: New Delhi Authorised Officer

public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 9 of the said Rules on this 04.07.2016.



शनिवार को आगरा में ताजमहल परिसर के तालाब में नहा कर गर्मी दूर भगाते लोग।

मोदी ने पीटरमारित्जबर्ग स्टेशन का दौरा कर किया गांधी को याद

इसी स्टेशन पर सात जून, 1893 को महात्मा गांधी को ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर धकेला था

जुलाई (भाषा)। इतिहास के पन्नों में झांकने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की अपनी यात्रा के दूसरे दिन मोदी नस्लीय भेदभाव के खिलाफ महात्मा गांधी के संघर्ष को श्रद्धांजलि देने के लिए पेंट्रिक से एक ट्रेन पर सवार होकर उनके निर्णय में अहम भूमिका निभाई। पीटरमारित्जबर्ग गए।

जब गांधी जी डरबन से प्रीटोरिया जा रहे थे तब एक श्वेत ने प्रथम श्रेणी के डिब्बे में उनके चढने पर आपत्ति जताई और उन्हें तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने को कहा गया। गांधी के पास

पीटरमारित्जबर्ग (दक्षिण अफ्रीका), 9 प्रथम श्रेणी का वैध टिकट था और उन्होंने तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद भयंकर सर्दी में शनिवार को यहां उस स्टेशन पर गए जहां पीटरमारित्जबर्ग स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से बाहर के साथ वार्ता के बाद प्रधानमंत्री ने शुक्रवार महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर धकेला गया था। धकेल दिया गया। वह रातभर ठंड में स्टेशन पर रूके रहे। इस घटना ने गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में ठहरकर वहां भारतीयों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव के विरूद्ध संघर्ष करने के

नरेंद्र मोदी उस जगह गए जहां गांधी जी को ांजलि देने का एक मौका है।' गौरतलब है कि वर्ष 1893 में सात जून को ट्रेन से उतार दिया गया था। मोदी फोनिक्स बस्ती भी जाएंगे जिसका गांधी से नजदीकी संबंध रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री ने पेंट्रिक रेलवे स्टेशन से पीटरमारित्जबर्ग तक की यात्रा की। उनकी

यात्रा, गांधीजी ने जिस ट्रेन में यात्रा की थी, उसी से मिलती जुलती ट्रेन में थी।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा को गांधी और नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। मोदी ने कहा था कि 'व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए यह यात्रा धरती पर अवतरित होने वाले दो महान आत्माओं महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला को श्रद्ध-

उन्होंने कहा था कि हम नस्लीय दमन और उपनिवेशवाद के खिलाफ साझा संघर्ष में साथ रहे। यह दक्षिण अफ्रीका ही था जहां गांधी को सही उद्यम मिला। वह जितना भारत के थे, उतना ही दक्षिण अफ्रीका के।

सेना में काम कर चुका था डलास का हमलावर

ह्यूस्टन, ९ जुलाई (भाषा)। अश्वेत व्यक्ति की पुलिस की गोली से हुई मौत के विरोध में डलास में हो रहे विरोध-प्रदर्शन में पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी करने वाले स्निपर की पहचान सेना के एक पूर्व रिजर्विस्ट के रूप में हुई है। स्पिनर ने 12 पुलिस अधिकारियों को गोलियां मारीं। इनमें से पांच पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

कानून प्रवर्तन सूत्रों के बताया कि 25 साल का मीकाह जेवियर जॉनसन ने जब गुरुवार रात को ब्लैक लाइफ्स मैटर प्रदर्शन के दौरान डलास में श्वेत पुलिसकर्मियों को निशाना बनाना शुरू किया था। उस समय उसने शरीर पर कवच पहन रखा था। उसके पास एक एसकेएस अर्द्ध स्वचालित असॉल्ट राइफल और एक पिस्तौल थी। पुलिस को शुक्रवार को जॉनसन के घर की तलाशी के दौरान बम बनाने का सामान, बैलिस्टिक वेस्ट, राइफलें, गोला बारूद और एक पत्रिका मिली जिसमें युद्ध की तकनीकों की जानकारी दी गई थी। जॉनसन ने घात लगाकर किए गए हमले के दौरान वार्ताकारों को बताया कि वह श्वेत लोगों को मारना चाहता है।

अधिकारियों ने बताया कि जॉनसन युद्ध के हथियारों का इस्तेमाल करने के मामले में पूरी तरह प्रशिक्षित था। उसने 2015 तक छह सालों के एक रिजर्विस्ट के तौर पर अपनी सेवाएं दी थीं। उसे नवंबर 2013 और जुलाई 2014 के बीच

डलास पुलिस ने शुक्रवार अपराहन जारी एक बयान में बंदुकधारी की पहचान की पुष्टि की और कहा कि उसे बताया था। जांचकर्ता पत्रिका में मौजूद बढ़ई और राजिमस्त्री के काम का मेडल से भी सम्मानित किया गया था

अफगानिस्तान में तैनात किया गया था।

लेकिन उसकी इकाई के सदस्यों के 'हम सभी जानते थे कि वह विकृत सोच का व्यक्ति था क्योंकि उसे लड़कियों के अंतःवस्त्र चुराते पकड़ा गया था। लेकिन पुलिसकर्मियों की हत्या करना तो अलग ही कहानी है।' उसने कहा. 'आपको वास्तव में नहीं

और जब पता चलता है तो बहत देर हो जाती है।' एक अन्य साथी लुई कांतो ने कहा कि जॉनसन का व्यक्तित्व अजीब सा था। कांतो ने फेसबुक पर लिखा, 'हम सभी जानते थे कि वह अजीब था लेकिन इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह यह भी कर सकता है।'

पता होता कि कोई क्या कर सकता है।

जॉनसन के इस कदम से उसके परिवार के सदस्य हैरान हैं। जॉनसन का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था या उसके किसी आतंकवादी समूह से संबंध नहीं था। जॉनसन की बहन

निकोल ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए कहा, 'मैं कह रही हूं कि यह सच नहीं है। मेरी आंखें रो-रोकर पुलिस द्वारा संचालित विस्फोटक से लदे दुखने लगी हैं। वह ही क्यों ? वह क्यों रोबोट के जरिए मारा गया।फेसबुक जानने वाले कुछ लोगों ने उसे अकेला डलास में था?' निकोल ने एक अन्य प्रोफाइल तस्वीर में जॉनसन वह पोस्ट में लिखा, 'समाचारों में बताया सूचना का विश्लेषण कर रहे हैं। वह जा रहा है कि वे क्या सोचते हैं लेकिन उसे जानने वाले लोग जानते हैं कि वह विशेषज्ञ था। उसे आर्मी अचीवमेंट ऐसा नहीं था। यह हमारा सबसे बड़ा नुकसान है।'इस बीच लुइसियाना के श्वेत पुलिस अधिकारियों द्वारा मारे गए बीच उसकी कोई खास छवि नहीं थी। अश्वेत 37 साल के एल्टन स्टर्लिंग की जॉनसन के साथ पूर्व में काम कर चुके मां क्विनयेट्टा मैक्मिलन ने कहा कि वेल्स न्युसम ने फैसबुक पर लिखा, वह गोलीबारी में अधिकारियों के मारे जाने से बहुत दुखी हैं। वह समझ सकती हैं कि परिजनों पर क्या गुजर रही होगी।

स्टर्लिंग के मारे जाने की घटना समेत पुलिस की गोलीबारी की हालिया घटनाओं के विरोध में डलास में प्रदर्शन किया गया था। जॉनसन की गोलीबारी ने एक अहिंसक रैली को खुन के सैलाब में बदल दिया। जॉनसन ने नरसंहार के बीच पुलिस वार्ताकार को बताया कि वह श्वेत अधिकारियों को निशाना बनाना चाहता था क्योंकि वह पुलिसकर्मियों द्वारा लोगों को मारे जाने डलास पुलिस प्रमुख डेविड ब्राउन ने कहा, 'वह पुलिस की गोलीबारी की हालिया घटनाओं के कारण नाराज था।

श्वेत लोगों, खासकर श्वेत अधिकारियों की हत्या करना चाहता था।' जॉनसन 'दाशिकी' पहने हुए है। उसने अश्वेत शक्ति सलामी के अंदाज में मुट्ठी बांधे हवा में हाथ उठाया हुआ है।

उसने ब्लैक राइंडर्स लिबरेशन पार्टी और द न्यू ब्लैक पैंथर्स पार्टी समेत अश्वेत राष्ट्रवाद से जुड़े कई समूहों के लिए समर्थन दिखाया था। जॉनसन की सौतेली मां डोना फेरियर ने जॉनसन की एक तस्वीर पोस्ट की है। इसमें उसने वर्दी पहन रखी है। वह एक सैन्य वाहन चला रहा है। डोना एक श्वेत है।

डलास अपराध जांचकर्ता शुक्रवार सबह कई घंटों तक डलास के बाहर करीब 12 मील दूर स्थित मेस्कीट में जॉनसन के घर में थे। पड़ोसियों ने कहा कि जॉनसन शांत और हंसमुख था लेकिन वह मुख्य रूप से स्वयं तक ही सीमित रहता था। डलास के मेयर माइक रोलिंग ने बताया कि जांच जारी है, इसलिए गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार तीन अन्य संदिग्धों के बारे में अभी कोई सूचना जारी नहीं की जाएगी।

ब्राउन ने कहा, 'कुछ संदिग्धों की हालिया घटनाओं से नाराज था। संबंधी जांच के जरिए हमें यह पता चला कि यह सुनियोजित, सोजी समझी साजिश के तहत संदिग्धों द्वारा अंजाम दी गई त्रासद घटना थी। हम तब तक चैन संदिग्ध ने कहा कि वह श्वेत लोगों से से नहीं बैठेंगे, जब तक हर अपराधी को नाराज था। संदिग्ध ने बताया कि वह न्याय के दायरे में नहीं लाया जाता।'

ब्रिटेन ने दूसरे जनमत संग्रह का अनुरोध खारिज किया

लंदन, 9 जुलाई (भाषा)। ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ (ईयू) में रहने या नहीं रहने के बारे ''हमें ईयू से हटने की प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए। में फैसले के लिए दूसरा जनमत संग्रह कराने के आह्वान वाली 41 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर द्वारा शुरू की गई याचिका में सरकार से अनुरोध वाली याचिका आधिकारिक रूप से खारिज कर दी।

ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि जनता के फैसले का 'सम्मान' किया जाना चाहिए। एक आधिकारिक जवाब में ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने इस सप्ताह कहा कि 3.3 करोड़ लोगों ने अपनी राय रखी है और में बड़े पैमाने पर इस याचिका को साझा किया था।

'फैसले का सम्मान होना चाहिए।' इसमें कहा गया,

जनमत संग्रह होने से पहले एक ब्रेक्जिट समर्थक किया गया था कि अगर 75 फीसद से कम मतदान होने पर ब्रिटेन के ईयू में रहने के पक्ष या विपक्ष में कुल मतदान के 60 फीसद से कम मत पड़ें तो परिणाम निरस्त किया जाए। लोगों ने सोशल मीडिया

भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को दी कड़ी चेतावनी

कोच्चि, 9 जुलाई (भाषा) पुलिस में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ी चेतावनी देते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने आज कहा कि इस तरह के चलन को अनुमित नहीं दी जाएगी।

यहां पर केरल पुलिस सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन के राज्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए विजयन ने कहा, 'पुलिस में भ्रष्टाचार है। यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। कोई भी नहीं सोच सकता है कि भ्रष्टाचार और पुलिस साथ-साथ चलेंगे। पुलिस बल के भ्रष्टाचार में शामिल उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।'

पुलिस बलों को हथियारों की आवश्यकता नहीं होने पर बल देते हुए विजयन ने कहा कि विश्वसनीयता और वैज्ञाानिक तरीकों से इसे मजबृत बनाया जा सकता है।

कार्यालय वसुली अधिकारी—। ऋण वसली अधिकरण−∣, दिल्ली

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली - 110 001 बिक्री उदघोषणा आर. सी. सं. 130/2014

देना बैंक बनाम विशाल पॉलीपैक

बिक्री की उदघोषणा आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत, बैंक और वित्तीय संस्थान को देय ऋण की वस्ती अधिनियम 1993 के साथ पढ़ा जाये।

मैसर्स विशाल पॉलीपैक, इसके प्रोपराईटर श्री महिपाल सिंह द्वारा

2. श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री राजा राम 3. श्रीमती रूचि सिंह पत्नी श्री महिपाल सिंह

श्री राजा राम भारद्वाज

सभी निवासी : (1) ए–8 / 13, द्वितीय एवं तीसरा तल, सैक्टर–15, रोहिणी, दिल्ली (2) दुकान नं. पी–3, डीडीए मार्किट, जीएच 5 एवं 7, पश्चिम विहार, दिल्ली (3) दुकान नं. पी-8, डीडीए मार्किट, जीएच 5 एवं 7, पश्चिम विहार, दिल्ली (4) सी-2/163, प्रथम एवं द्वितीय तल, सैक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली (5) सी–2/120, सैक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली (6) सी–2/121, प्रथम एवं द्वितीय तल, सैक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली (7) 682, जीएच 5 एवं 7, पश्चिम विहार, दिल्ली (8) 1241, जीएच 5 एवं 7, मीरा बाग, पश्चिम विहार, दिल्ली (9) 282 / 283, रामपुरा, त्री नगर, दिल्ली

जहाँ पर पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण- । द्वारा वसूली प्रमाणपत्र सं 130 / 2014, ओए सं 202 / 2013 दिनांक 23.09.2014 के द्वारा वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार रु. 37854683.13 साथ में दिनांक 15.10.2013 से 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं खर्चलागत प्रामाणपत्र देनदार से वसुली किया जाएगा

और जहाँ पर अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रमाणपत्र से संतुष्ट हो कर निम्नलिखितानुसार उल्लिखित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

और जहाँ पर प्रतिवादी द्वारा रु. 37854683.13 साथ में दिनांक 15.10.2013 से 13 प्रतिशत वार्षिक व्याज एवं खर्चलागत के साथ में देय होगा। सुचित किया जाता है कि स्थगन के किसी आदेश के आभाव में उक्त सम्पत्ति ई-नीलामी के द्वारा दिनांक 10.08.2016 को लॉट नं. 1 एवं 2 की नीलामी और दिनांक 11.08.2016 को लॉट नं. 3 एवं 4 की नीलामी वेबसाईट : website : https://www.drtauctiontiger.net पर "ऑन

लाईन ईलैक्ट्रॉनिक बिड" द्वारा की जाएगी। उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री निम्नलिखितानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावें को, जैसा अभी तक निर्धारित किया गया है, वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। सम्पत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट पर की जाएगी, यादि सम्पत्ति भाग की बिक्री की राशि संतुष्टि लायक होगी तो शेष के संबंध में

बिक्री को तुरन्त रोक दिया जाएगा। किसी लॉट के नीचे गिरने पर भी बिक्री समाप्त कर दी जाएगी। बिक्री कर रहे अधिकारी के समक्ष प्रमाणपत्र में

उल्लिखित बकाया, ब्याज शुल्क (बिक्री लागत सहित) प्रस्तुत करने होंगे अथवा उनकी संतुष्टि के साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि प्रमाणपत्र, ब्याज एवं लागत अद्योहस्ताक्षरी को भगतान किए जा चके हैं। बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए अधिग्रहण अथवा प्रयास

आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरुप ही बिक्री की जाएगी। बिक्री उदघोषणा के अनुसूची में उल्लिखित विवरण अद्योहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है परन्तु किसी त्रूटी, गलत

ब्यान अथवा उदघोषणा में चुक के होने पर अद्योहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होगें। लॉट नं. 1 का आरक्षित मूल्य रु. 70 लाख, लॉट नं. 2 हेतु 7 लाख और लॉट नं. 3 हेतु रु. 42 लाख और लॉट नं. 4 हेतु रु. 115 लाख होगा।

उपरोक्त आरक्षित मूल्य के नीचे सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी। निविदा राशि जिससे बिंड राशि को बढ़ाया जाएगा वह 🕏. 25,000.00 होगी। निविदा राशि पर अथवा निविदादाता द्वारा किसी विवाद पर लॉट

के लिए नीलामी को तरंत दोबारा प्रारंभ करवाया जाएगा किसी भी लॉट के सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाऐगा बशर्ते की वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा

लगाई गयी बोली आरक्षित मूल्य से कम नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा, यदि प्रस्तावित मृल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त हो जिसे स्वीकार करना अनुचित हो। इच्छुक निविदादाताओं को लॉट नं. 1 हेतु रु. 7 लाख, लॉट नं. 2 हेतु रु. 70,000.00, लॉट नं. 3 हेतु रु. 4.2 लाख और लॉट नं. 4 हेतु रु. 11.5

लाख, धरोहर राशि पे आर्डर / डिमांड के रूप में, वसूली अधिकारी, डी आर टी, दिल्ली, आर सी नं. 130 / 14 के पक्ष में दिल्ली में देय, दिनांक 08.08.2016 तक सभी लॉटों की धरोहर राशि जमा करनी होगी। उसके उपरान्त प्राप्त धरोहर राशि (ई एम डी) विचारणीय नही होगी। सफल बोलीदाता के लिए उपरोक्त जमा को समायोजित कर दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं को उनकी धरोहर राशि (ई एम डी) ई—नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद बैंक से वापस कर दी जाएगी। सफलतम / उच्चतम बोलीदाता को बिक्री मुल्य का 25 प्रतिशत राशि वसुली अधिकारी, ऋण वसुली अधिकरण, दिल्ली, खाता आर सी न.

के पश्चात यह ई-निलामी के बंद होने से 3दिनों के भीतर रिकवरी अधिकारी के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए, ऐसा ना करने पर धरोहर सम्पत्ति का क्रेता बिक्री मूल्य का बकाया 75 प्रतिशत मूल्य सम्पत्ति की बिक्री की तिथि (उस दिन को छोड़कर) से 15वें दिन या उससे पहले वसूली अधिकारी के समक्ष जमा करेगा और यदि 15वें दिन रविवार या अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस पर (15 दिन के पश्चात) ऐसा किया जाऐगा।

130 / 14 के पक्ष में बैंक डाफ्ट / पे-ऑर्डर के द्वारा, निलामी के 24 घण्टे के अंदर तैयार करना होगा और धरोहर राशि को समायोजित करने

एवं 2 प्रतिशत प्रथम रु. 1000 /— पर और उसके बाद शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भूगतान रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-। दिल्ली के पक्ष में जमा करवाना होगा (75 प्रतिशत शेष जमा राशि के मामले में पोस्ट के माध्यम से ही ऊपर वर्णित रूप में वसली अधिकारी तक पहुँच जाना चाहिए) उपरोक्त समयावधि में भुगतान ना करने पर, उक्त सम्पत्ति की पुनः बिक्रय नई उद्घोषणा जारी करके किया जाऐगा। उस स्थिति में व्यतिक्रमी क्रेता के द्वारा जमा राशि को अधोहस्ताक्षरकर्ता यदि उचित समझता है तो विक्रय के खर्चे समायोजित किये जाने के पश्चात सरकारी खाते में जब्त कर ली

सम्पत्ति को "जहाँ है जैसा है आधार" पर बेचा जाएगा

जायेगी एवं उस स्थिति में व्यतिक्रमी क्रेता के उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में या राशि के किसी भाग के सम्बंध में प्राप्त समस्त अधिकार जब्त हो जायेंगे।

अद्योहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रास्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। सम्पत्ति की अनुसूची

	अन्य सह मालिकों के नाम के सहित, बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण, जहाँ सम्बन्धित सम्पत्ति डिफाल्टर या जो किसी अन्य व्यक्ति के सह–स्वामित्व में है।	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति से सम्बंध रखता है।
	सम्पत्ति नं. 13, ब्लॉक—ए, पॉकेट—8, सैक्टर—15, रोहिणी, दिल्ली—85			
	सम्पत्ति नं. पी –3, सीएससी,			
	जी एच 5 एवं 7, जेड एन—जी—17, सुपर एरिया 11.28 वर्ग मी., भूतल,		कोई सूचना प्राप	त नही

कोई सूचना प्राप्त नहीं

मेरे समक्ष दिनांक 20.06.2016 को मोहर किया गया

पश्चिम विहार, नई दिल्ली

सैक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-85

ब्लॉक सी, पॉकेट-2,

पाकिस्तान 'दोस्त है या दुश्मन', बहस होगी अमेरिकी संसद में

वाशिंगटन, 9 जुलाई (भाषा)। पाकिस्तान के 'दोहरे खेल' से ऊबे अमेरिकी सांसदों ने अगले हफ्ते अमेरिकी कांग्रेस में एक सुनवाई आयोजित करने की घोषणा की है। इसमें यह चर्चा की जाएगी कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का 'दोस्त है या दुश्मन'।

कांग्रेस सदस्य और सदन की विदेशी मामलों की समिति की आतंकवाद, परमाणु अप्रसार एवं व्यापार से संबंधित उपसमिति के अध्यक्ष टेड पो ने कहा कि सुनवाई से सदस्यों को आतंकी समूहों के साथ पाकिस्तान के पुराने संबंधों के बारे में जानने का और पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की विदेशी नीति के बेहतर पुनर्मूल्यांकन का मौका मिलेगा। 'पाकिस्तान :

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोस्त या दुश्मन?' नाम की सुनवाई का आयोजन विदेशी मामलों की समिति की आतंकवाद, परमाणु अप्रसार एवं व्यापार से संबंधी उपसमिति तथा एशिया एवं प्रशांत से जुड़ी उप सिमिति कर रही हैं। एशिया एवं प्रशांत से जुड़ी उपसमिति के प्रमुख कांग्रेस सदस्य मैट सैलमोन ने पाकिस्तान के कथित 'दोहरे खेल' को लेकर कहा, 'अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (९/11) हमला) पर हुए आतंकी हमले के बाद से करदाताओं के अरबों डालर पाकिस्तान को मदद देने के लिए खर्च किए हैं। अब 15 साल बाद पाकिस्तान की सैन्य और खुफिया सेवाएं के तार अब भी आतंकवादी संगठनों से जुड़ रहे हैं और क्षेत्र को स्थिर करने में बहुत कम सफलता मिली है।

बच्चे की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास

परिजन की हत्या के आरोप में सुनवाई करते हुए विलान न्यायाधीश एडीजे मनराज सिंह ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20,000 रुपए का जुर्माना किया है।

गाजीपुर थाना क्षेत्र के चक रसूलपुर निवासी विश्वनाथ पुत्र जगरूप लोधी ने अपने साले सितम्बर, 2014 को दोपहर दो बजे अभियुक्त विजयपाल ने अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपने बच्चे रोहित कंचन और एक परिजन को शरबत में जहरीला पदार्थ मिला पर पिला दिया था। इससे उनकी मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे कोर्ट नं. 9 मनराज सिंह ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद घटना को सही पाया और अभियुक्त विजय पाल को उम्र कैद की सजा सुनाई तथा 20 हजार रुपए का जुर्माना किया। अभियोजन पक्ष सें शासकीय अधिवक्ता जयपाल वर्मा व अजय सिंह पटेल रहे। पुलिस ने अभियुक्त को हिरासत में

ईद पर मायके नहीं जाने दिया, आत्महत्या की कल्यानपुर थानाक्षेत्र के गांव माहौर में बीती रात एक लगभग 28 वर्षीय युवती ने घर के अंदर फांसी लगा कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार माहौर गांव निवासी मुबारक की पत्नी सितारा बेगम जो ईद के पर्व में अपने मायके जाने की जिद्द कर रही थी लेकिन इनकार कर देने पर बीती रात उसने घर के अंदर धन्नी में तार से फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। उधर सूचना पाकर मौके पर

लेकर जेल भेज दिया है।

फतेहपुर, 9 जुलाई (जनसत्ता)। बच्चे और पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर विच्छेदन गृह भेज दिया। पोस्टमार्टम हाउस में लड़की के भाई शहादत अली निवासी शाह गाजीपुर ने अपनी बहन की ससुरालजनों पर कोई आरोप न लगाते हुए बताया कि उसकी बहन कुछ जिद्दी टाइप की थी, इनकार हो जाने पर उसने घटना को अंजाम दे दिया।

करंट से मजदूर की मौत : किशनपुर थानाक्षेत्र विजयपाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था कि 3 के अंतर्गत कनपुरवा पावर हाउस में शनिवार सुबह पोल में चढ़ कर लाइन जोड़ रहे एक लगभग 25 वर्षीय युवक एचटी लाइन की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने रोड पर शव रख कर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने ग्रामीणों को समझा बुझाया। एसडीएम ने मौके पर 20 हजार रुपए दिए और पोस्टमार्टम के बाद 80 हजार रुपए व भारतीय बीमा निगम की तरफ से 75 हजार रुपए देने का आश्वासन दिया। जाम खुलने

के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। **बुलेरो पलटी, ड्राइवर की मौत** : मलवां थानाक्षेत्र के ग्राम तारापुर असवार के समीप शनिवार सुबह बारात वापस लेकर जा रही बोलोरो बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर कई पलटी खाकर नाले में जा गिरी। इससे वाहन चालक एवं मालिक अरविंद पांडेय पुत्र राजिकशोर पांडेय निवासी दरियापुर की घटनास्थल पर मौत हो गई। लगभग एक दर्जन बराती चोटिल हो गए जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। जानकारी के अनुसार बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के दरियापुर गांव से मलवां थाने के बैजानी गांव निवासी बाबु के यहां बारात आई थी।

यूफ्लेक्स लिमिटेड

CIN: L74899DL1988PLC032166 पंजी. कार्यालय: 305, 3रा तल, भनोत कॉर्नर, पम्पोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली- 110048, फोन: +91-11- 26440917, 26440925,

> फैक्सः +91-11-26216922, वेबसाईटः www.uflexltd.com, ई-मेलः flexsec@vsnl.net

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि यफ्लेक्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 27वीं वार्षिक साधारण सभा ('' एजीएम'') मंगलवार, 2 अगस्त, 2016 को 10.00 बजे पूर्वा में एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली- 110010 में आयोजित की जाएगी जिसमें सूचना तिथि 27 मई, 2016 में वार्षिक व्यवसाय को निष्पादित किया जाएगा। वार्षिक साधारण सभा की सचना तथा वार्षिक रिपोर्ट. 2016 को इलेक्ट्रानिक प्रति ऐसे शेयरधारकों को ई-मेल आईडी पर भेजी गई है जिनके ई-मेल आईडी कंपनी में पंजीकृत हैं तथा साथ ही वह कंपनी की वेबसाईट www.uflexltd.com पर भी प्रकाशित है। वार्षिक साधारण सभा तथा वार्षिक रिपोर्ट अन्य सभी सदस्यों को स्वीकृत प्रक्रिया में उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है। इस प्रेषण कार्य को 5 जुलाई, 2016 को पूरा कर लिया गया है। सदस्य कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में लिखित में अनुरोध भेजकर एवं/ अथवा flexsec@vsnl.net पर ई- मेल भेजकर भौतिक

पद्धति में उक्त सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे। नियम. 20. कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 समय-समय पर यथा संशोधित तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार यह कंपनी सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के लिए अपने सदस्यों को सुविधा उपलब्ध करा रही है। शेयरधारकों को ई-वोटिंग सविधा उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाएं प्राप्त की हैं। सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 26 जुलाई, 2016 से 2 अगस्त, 2016 (दोनों दिवस सहित) तक एजीएम तथा वर्ष 2016 के लिए लाभांश हेतु शेयरधारकों की अधिकारिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है किः

क) एजीएम की सचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित

ख) रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समयः शनिवार, 30 जुलाई, 2016 को 9.00 बजे n) रिमोट- ई-वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समयः सोमवार, 1 अगस्त, 2016 को 5.00 बजे

घ) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा एजीएम में मतदान करने के लिए पात्रता सुनिश्चित करने

के लिए कट ऑफ तिथिः मंगलवार, 26 जुलाई, 2016 सदस्यों के मतदान का अधिकार कट- ऑफ तिथि को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में होगा।

ङ) यदि कोई सदस्य एजीएम सूचना प्रेषण के बाद कंपनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कंपनी का सदस्य बनते हैं तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् 26 जुलाई, 2016 को शेयर धारित करते हैं, वे वार्षिक साधारण सभा की सुचना में उपलब्ध लागिन आईडी तथा पास्वर्ड बनाने की प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के पास पहले से पंजीकृत हैं तो मतदान करने के लिए वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

च) सदस्य कृपया ध्यान रखें

(क) 1 अगस्त, 2016 को 5.00 बजे सायं के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी

(ख) मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराया जाएगा तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे समय जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किए हों. वे मतदान पत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते

(ग) कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर लेने के बावजूद भी इस साधारण सभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन सभा में उन्हें फिर से मतदान करने की अनुमित नहीं दी जाएगी।

(घ) यदि किसी सदस्य का नाम कट ऑफ तिथि को डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही साथ साधारण वार्षिक सभा में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकृत होंगे 🛿 छ) कंपनी तथा एजेंसी की वेबसाईट का पता जहां सभा की सूचना प्रदर्शित है:

www.uflex.com तथा www.evoting.com ज) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा से संबंधित शिकायतों को संबोधित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता, ई-मेल आईडी तथा फोन नंबरः श्री सुभाष खटुआ, उप महा प्रबंधक (सेक्रेटैरिअल), ई-मेल आईडीः flexsec@vsnl.net,

एंक्लेव, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048 बोर्ड के आदेश के वरि. उपाध्यक्ष (लीगल) एवं

एसीएस नं. 3296 स्थानः नोएडा तिथि: 8.7.2016 पताः सी-115, सेक्टर-126, नोएडा-201301

टेलीफोन नं.: 011-26440917, 011-26440925, पताः 305, 3रा तल, भनोत कॉर्नर, पम्पोश सम्पत्ति नं. 163 ब्लॉक सी, पॉकेट-2, हस्ता/ आवासीय सम्पत्ति नं. 120 एवं 121, अजय कृष्ण सैक्टर-16, रोहिणी, नई दिल्ली कंपनी सचिव

आलोक कुमार दीक्षित, वसूली अधिकारी-। डीआरटी— I, दिल्ली